


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 1979/आषाढ़ 15, 1901
No. 222] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 1979/ASADHA 15, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1979

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 437 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 130-सीमा-शुल्क, तारीख 18 जून, 1979 को अधिकृत करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लांकाईत में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची के शीर्ष सं. 1 के अंतर्गत आने वाली काफी को, जब उसका निर्यात

भारत से बाहर किया जाए, उक्त द्वितीय अनुसूची के अधीन उस पर उद्भवशील सीमाशुल्क के उसने भाग से छूट देती है, जो प्रति क्विंटल 900 रु. से अधिक है।

[सं. 156 फा. सं. 347/7/78-टी आर यू]

टी. आर. रस्तगी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 437(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 130-Customs, dated the 18th June, 1979, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coffee, falling under Heading No. 1 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of Rs. 900 per quintal.

[No. 156/F. No. 347/7/78-TRU]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.